



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 815]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/ पौष 2, 1937

No. 815]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि.1002(अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची-2 में मद सं. 9 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“10. वेतनबैंड-2, 9300 से 34,800/- रु. में 4800/- रु. से कम ग्रेड वेतन लेने वाले सभी समूह “ख” पद आमेसन पद्धति और संयुक्त पद्धति द्वारा भरे जाएंगे”।

[फा. सं. 39018/012015-स्था.(बी)]

डॉ. देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 789(अ), तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्तवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया, अर्थात:-

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	1197	20 दिसंबर, 1958
2.	1451	10 दिसंबर, 1960
3.	731	03 जून, 1961

4.	1047	26 अगस्त, 1961
5.	382	31 मार्च, 1962
6.	1644	08 दिसंबर, 1962
7.	1689	15 दिसंबर, 1962
8.	578	06 अप्रैल, 1963
9.	1888	14 दिसंबर, 1963
10.	679	02 मई, 1964
11.	431	20 मार्च, 1965
12.	599	24 अप्रैल, 1965
13.	1672	20 नवंबर, 1965
14.	388	19 मार्च, 1966
15.	622	30 अप्रैल, 1966
16.	944	18 जून, 1966
17.	1433	21 जून, 1969
18.	633	18 अप्रैल, 1970
19.	879	06 जून, 1970
20.	1654	06 नवंबर, 1971
21.	168	24 फरवरी, 1973
22.	465(अ)	14 नवंबर, 1974
23.	594	17 मई, 1975
24.	2288	30 अगस्त, 1975
25.	1063	24 जुलाई, 1976
26.	610	14 मई, 1977
27.	740	02 जून, 1979
28.	441(अ)- शुद्धिपत्र	14 जुलाई, 1979
29.	73	23 जनवरी, 1982
30.	480 – शुद्धिपत्र	29 मई, 1982
31.	481	29 मई, 1982
32.	329	06 अप्रैल, 1985
33.	479	18 मई, 1985
34.	512	01 जून, 1985
35.	918	05 अक्तूबर, 1985
36.	59	25 जनवरी, 1986
37.	268	12 अप्रैल, 1986
38.	1071	20 दिसंबर, 1986
39.	273	18 अप्रैल, 1987
40.	74	06 फरवरी, 1988
41.	590	23 जुलाई, 1988
42.	704	23 सितंबर, 1989
43.	37	20 जनवरी, 1990
44.	623	6 अक्तूबर, 1990
45.	666	30 नवंबर, 1991
46.	383(अ)	24 मई, 1999
47.	219	17 जुलाई, 1999
48.	88	17 फरवरी, 2001
49.	54	8 फरवरी, 2003
50.	232	14 जून, 2003
51.	405	22 नवंबर, 2003
52.	67	6 मार्च, 2004
53.	247	23 जुलाई, 2005
54.	349	8 अक्तूबर, 2005
55.	204(अ)	03 अप्रैल, 2006
56.	134	10 जून, 2006
57.	567(अ)	30 जुलाई, 2008

58.	297(अ)	30 अप्रैल, 2009
59.	544(अ)	22 जुलाई, 2009
60.	727(अ)	7 अक्टूबर, 2009
61.	12(अ)	6 जनवरी, 2010
62.	57(अ) शुद्धिपत्र	3 फरवरी, 2010
63.	788(अ)	29 सितम्बर, 2010
64.	472(अ)	21 जून, 2011
65.	596(अ)	28 जुलाई, 2012
66.	620(अ)	11 सितम्बर, 2013
67.	691(अ)	17 अक्टूबर, 2013
68.	773(अ)	11 दिसंबर, 2013
69.	11(अ)	31 दिसंबर, 2013
70.	491(अ)	15 जून, 2015
71.	556(अ)	15 जुलाई, 2015
72.	655(अ)	25 अगस्त, 2015

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2015

G.S.R.1002(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Amendment Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, in the Schedule II, after the item 9 and the entries relating thereto, the following item shall be inserted, namely :-

“10. All Group ‘B’ posts carrying a Grade Pay less than Rs. 4800/- in Pay Band-2 of Rs. 9300 to 34800/- filled by absorption method and composite method”.

[No. 39018/01/2015-Estt.(B)]

Dr. DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R 789, dated the 13th September, 1958 and subsequently amended vide the following notifications, namely:-

S.No.	GSR No	Date
1.	1197	20th December, 1958
2.	1451	10th December, 1960
3.	731	03rd June, 1961
4.	1047	26th August, 1961
5.	382	31st March, 1962
6.	1644	08th December, 1962
7.	1689	15th December, 1962
8.	578	06th April, 1963
9.	1888	14th December, 1963
10.	679	02nd May, 1964
11.	431	20th March, 1965
12.	599	24th April, 1965
13.	1672	20th November, 1965
14.	388	19th March, 1966
15.	622	30th April, 1966

16.	944	18th June, 1966
17.	1433	21st June, 1969
18.	633	18th April, 1970
19.	879	06th June, 1970
20.	1654	06th November, 1971
21.	168	24th February, 1973
22.	465(E)	14th November, 1974
23.	594	17th May, 1975
24.	2288	30th August, 1975
25.	1063	24th July, 1976
26.	610	14th May, 1977
27.	740	02nd June, 1979
28.	441(E)-Corrigendum	14th July, 1979
29.	73	23rd January, 1982
30.	480 - Corrigendum	29th May, 1982
31.	481	29th May, 1982
32.	329	06th April, 1985
33.	479	18th May, 1985
34.	512	01st June, 1985
35.	918	05th October, 1985
36.	59	25th January, 1986
37.	268	12th April, 1986
38.	1071	20th December, 1986
39.	273	18th April, 1987
40.	74	06th February, 1988
41.	590	23rd July, 1988
42.	704	23rd September, 1989
43.	37	20th January, 1990
44.	623	06th October, 1990
45.	666	30th November, 1991
46.	383(E)	24th May, 1999
47.	219	17th July, 1999
48.	88	17th February, 2001
49.	54	08th February, 2003
50.	232	14th June, 2003
51.	405	22nd November, 2003
52.	67	6th March, 2004
53.	247	23rd July, 2005
54.	349	08th October, 2005
55.	204(E)	03rd April, 2006
56.	134	10th June, 2006
57.	567(E)	30th July, 2008
58.	297(E)	30th April, 2009
59.	544(E)	22nd July, 2009
60.	727(E)	7th October 2009
61.	12(E)	6th January, 2010
62.	57(E) Corrigendum	3rd February, 2010
63.	788(E)	29th September, 2010
64.	472(E)	21st June, 2011
65.	596(E)	28th July, 2012
66.	620 (E)	11th September, 2013
67.	691 (E)	17th October, 2013
68.	773(E)	11th December 2013
69.	11 (E)	10th January, 2014
70.	491(E)	15th June, 2015
71.	556(E)	15th July, 2015
72.	655 (E)	25th August, 2015